

प्रेसनोट

दिनांक 25.01.2023

***पुलिस अधीक्षक अमरोहा श्री आदित्य लांगहे के निर्देशन में आज दिनांक:- 25.01.2023 को जनपद में अपराधियों के विरुद्ध अपराधनियन्त्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान एवं जनपद में शान्ति व्यवस्था कायम रखने हेतु की गयी कार्यवाही का विवरण*:-**

- थाना अमरोहा नगर पुलिस द्वारा अभियुक्त नदीम पुत्र कलुवा निवासी मौ0 अहमद नगर थाना अमरोहा नगर जनपद अमरोहा को मय 10 लीटर अवैध देशी शराब सहित गिरफ्तार कर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी ।
- थाना अमरोहा देहात पुलिस द्वारा अभियुक्त अर्जुन पुत्र अतर सिंह निवासी मौ0 रफातपुरा थाना अमरोहा देहात जनपद अमरोहा को मय 45 पच्चे देशी शराब सहित गिरफ्तार कर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी ।
- थाना डिडौली पुलिस द्वारा अभियुक्त राशिद पुत्र अख्तर निवासी मोहल्ला इकबालनगर जोया थाना डिडौली जनपद अमरोहा को मय 20 लीटर अवैध देशी शराब सहित गिरफ्तार कर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी ।
- थाना बछरायूं पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त निरंजन पुत्र टीकाराम उर्फ टेकचन्द्र निवासी जाटो वाली मढैया थाना बछरायूं जनपद अमरोहा को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।
- थाना हसनपुर पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्ता श्रीमती रोबनी पत्नी शीषपाल निवासी शाहपुर कलां थाना हसनपुर जनपद अमरोहा को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया गया ।
- थाना रहरा पुलिस द्वारा वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाकर मोटर साइकिल को टक्कर मारना जिससे वादी के भाई की ईलाज के दौरान मृत्यु हो जाने व दो अन्य लोगो के घायल हो जाने के सम्बन्ध में पंजीकृत अभियोग में वांछित अभियुक्त रामसेवक पुत्र मिडू लाल निवासी ग्राम भैंकुरी थाना हसायन जनपद हाथरस को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी ।
- जनपद में शांति व्यवस्था कायम रखने हेतु जनपद पुलिस द्वारा 12 व्यक्तियों का चालान धारा 151 द0प्र0सं0 में किया गया जिसमें थाना मंडी धनौरा पुलिस द्वारा 04 व्यक्ति, थाना गजरौला पुलिस द्वारा 03 व्यक्ति, थाना रजबपुर पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति व थाना आदमपुर पुलिस द्वारा 04 व्यक्ति का धारा 151 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत चालान किया गया ।